

# हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली मुज़फ्फरनगर के युवक की फैक्ट्री की मशीनें जब्त

साथ ही नितिन प्रजापति निवासी ग्राम मोहनपुरा, रुड़की, राशिद खान निवासी मोहल्ला कस्बा, थाना धामपुर जिला बिजनौर व हाल निवासी गुलाबनगर, रुड़की, रोहिताश सैनी निवासी ग्राम रोहनाखास, मुज़फ्फरनगर, संचित निवासी पूर्वावली गणेशपुर, रुड़की और संजीत निवासी ग्राम सिकरोढा, भगवानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



**मुज़फ्फरनगर.** भगवानपुर पुलिस ने सहारनपुर में नकली दवा बनाने के मामले में फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर दवाएं बनाने और पैकिंग करने वाली सभी मशीनों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस जल्द ही भगवानपुर स्थित फैक्ट्री से भी मशीनों को जब्त कर सकती है।

एसटीएफ देहरादून ने पांच जून को भगवानपुर के रायपुर के पास बंद पड़ी इनोवा ड्रग एंड फार्मा कंपनी, लक्सर के ग्राम पीपली के पास और सहारनपुर के कैलाशपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी थीं। एसटीएफ ने तीनों स्थानों से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की थीं। साथ ही नितिन प्रजापति निवासी ग्राम मोहनपुरा, रुड़की, राशिद खान निवासी मोहल्ला कस्बा, थाना धामपुर जिला बिजनौर व हाल निवासी गुलाबनगर, रुड़की, रोहिताश सैनी निवासी ग्राम रोहनाखास, मुज़फ्फरनगर, संचित निवासी पूर्वावली गणेशपुर, रुड़की और संजीत निवासी ग्राम सिकरोढा, भगवानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

तीनों जगहों पर फैक्ट्री को सील कर सामान कब्जे में ले लिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने सहारनपुर के कैलाशपुर पहुंचकर फैक्ट्री से दवाएं बनाने और पैकिंग करने वाली मशीनों को कब्जे में लिया है। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि मशीनों को कब्जे में लेकर भगवानपुर थाने में रखवा दिया गया है। जल्द अन्य स्थानों से मशीनों को जब्त किया जाएगा।

Source: <https://www.asbnewsindia.com/machines-of-muzaffarnagars-youth-manufacturing-counterfeit-medicines-seized-in-haridwar/>